

PREMIER POLYFILM LIMITED

Registered Office: 305, Elite House, III Floor, 36, Community Centre, Kailash Colony Extension, Zamroodpur, New Delhi 110048 CIN:L25209DL1992PLC049590; Email: compliance.officer@premierpoly.com Website: www.premierpoly.com; Telephone: 011-45537559

PPL/SECT/2024-2025 Date: 09-02-2025

To,

BSE LIMITED NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LTD

SUBJECT : NEWSPAPER PUBLICATION - INTIMATION REGARDING DISPATCH OF POSTAL BALLOT NOTICE AND E-VOTING INFORMATION

SCRIP CODE:

NSE: PREMIERPOL,

BSE 514354

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulations 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, we herewith enclose the copies of relevant pages of Newspapers i.e. Jansatta dated 09-02-2025 and Financial Express dated 09-02-2025 wherein the notice to the shareholders regarding dispatch of Postal Ballot Notice and E-voting information were published.

This is for your record.

Thanking you,

Yours faithfully, For PREMIER POLYFILM LIMITED

HEENA SONI COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

Enclosed: As above

INTEGRA ESSENTIA LIMITED

CIN: L74110DL2007PLC396238
REGD OFF: 607, 6th Floor, Pearls Best Height -II, Netaji Subhash Place, North West Delhi, Delhi, India, 110034

Statement of Unaudited Consolidate	Statement of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine Month Ended 31st December, 2024 (All figures are in lakhs except otherwise stated)											
		CONSOLIDATED					STANDALONE					
		Quarter End	led	Nine Mor	ths Ended	Year Ended	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended
Particulars	31-12-2024	30-09-2024	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2023	31-03-2024	31-12-2024	30-09-2024	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2023	31-03-202
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total Income	12641.016	13,125.98	6,383.75	34,576.61	19,499.34	29,562.38	12,641.02	13,125.98	6,383.75	34,576.61	19,499.34	29,562.38
Total Expenses	4524	13,085.42	6,288.42	34,032.74	18,248.20	27,665.88	12,477.00	13,060.71	6,288.42	34,032.74	18,248.20	27,665.88
Profit Before Exceptional Items and Tax	188.72913	40.56	95.32	543.87	1,251.13	1,896.51	164.02	65.27	95.32	543.87	1,251.13	1,896.51
Share in Profit (Loss) in Associate Entity accounted for Using Equity Method	-3.61	-3.20	-0.41	-6.03	14.31	14.28						
Profit/ (Loss) Before Tax	185.12004	37.36	94.91	537.85	1,265.44	1,910.79	164.02	65.27	95.32	543.87	1,251.13	1,896.51
Tax Expense/(Benefits)	61.35	9.13	24.00	148.99	314.89	367.32	55.43	16.76	24.00	150.51	314.89	368.39
Profit/(Loss) for the period	123.76933	28.23	70.92	388.85	950.56	1,543.46	108.59	48.51	71.33	393.36	936.25	1,528.11
Other Comprehensive Income	0.11	0.19	24.57	1.81	73.71		0.11	0.19	24.57	1.81	73.71	
Total Comprehensive Income for the period	123.88	28.42	95.48	390.66	1,024.26	1,543.46	108.70	48.70	95.89	395.17	1,009.95	1,528.11
Paid up equity share capital	10,676.91	10,676.90	4,570.33	10,676.91	4,570.33	9,140.66	10,676.91	10,676.50	4,570.33	10,676.91	4,570.33	9,140.66
Other Equity excluding Revaluation Reserves						2,571.16						2,549.63
Earnings per Equity Share of 1 each	0.01	0.00	0.02	0.04	0.22	0.28	0.01	0.00	0.02	0.04	0.22	0.27

January 2025. The Statutory Auditor of the Company has issued the Limited Review report on above Financial Res Therm of the Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The results of the Commany are also available for improvements.

For Integra Essentia Limited

Deepak Kumar Gupta (Whole time Director cum CEO)

सार्वजनिक सुवना

स्थितगानक स्थान स्वात्वाधियम् २००७ कियम गरि() के अनुसार् भंगीहाक कार्यास्य को एक पाण्या में तुक्के राज्य में सर्वेद्धले के सिर् मेंकाम्यन विजयुरार आँक कंपनीज, नई दिल्ली के पाण्या भीवा भीवल, आईएलकीआई टील्ट, ठा; नेक्क प्लेस, पूर्व दिल्ली गोज पाण्या एल्लाई क्रीमेंग्य, 2000 की पाया 130) से मार्थन में एल्लाई विजयुरा 2000 की पाया 130 कार्य भीवा

लुमिकाई इंटरएक्टिव II एलएलपी (ABZ-0548) (ADZ-U346) स्तका मंत्रीवृत कार्यात्य 12/48 किप्लोमेटिक, 28वी एस.पी. मार्ग, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110021 में रिवत है, वे ममते में

रिक्ती : पाय के कामांदित का 'मिराना पाया' ' के को की कामांदित का 'मिराना पाया' ' के को की कामांदित की मार्ग की कामांदित विकास की कामांदित की कामांदित

सार्वजिनिक सूचना एसएसपी स्थिम, 2099 के स्थिम 17(1) के अनुवारी पर्योशक कार्यास्त्र को एक राज्य से दुवरे उन्न में परिवर्तन के सिए सिक्सापन रिजेस्ट्रार ऑफ कंपनीच, गृह दिस्सी के दमक्ष भीवी मंत्रित, आईप्सचीआई टीवर, ती मेक्स प्लेग, गृह दिस्सी - 110019

लुमिकाई इंटरएक्टिव एलएलपी (AAS-7996)

(AAS-7896) विसक्ता पंजीवृद्धा कार्यात्व 28 बी, सरदार घटेल मार्ग, चाणवयपुरी, नई विल्ली, विल्ली, 110021 भारत, में स्थित है के मानते में

लएलपी के नीवे जीलावित क्योंकत करवार के यो एर वे ने। पंजीकृत कार्यातस्य 28 वी. करवार पटेल वार्या एणक्यपुरी, नई दिल्ली, दिल्ली, 110021 भारत, आदेक के लिए और उनकी और न लुमिकाई इंटरएक्टिट एलएलपी

दिनांक : 09.02.2025 (नामित भागीदार) स्थान : दिल्हीं डीपीआइएन: 06775680 सार्वजनिक सूवना

सार्वजिकिक सुवाना स्वत्रस्थि वियम, 2009 में विश्व गा 171 के अनुवारी पर्याकृत कार्यावस्य को एक राज्य से दुबारी पर्याकृत कार्यावस्य को एक राज्य से दुबारी पर्याक्ति कार्या पर्याक्तियां, यह दिवसी के सारका श्रीका परित्र आर्युप्पानीआर्थ दौरार, 191 में कर फोरा, गई दिवसी - 110018 एल्ट्ली अविशियम 2008 से वाचा 155) के मानते में स्वात्यां निवस, 2008 के विषय में के साथ प्रीठी

जीर लुमिकाई स्पास्तर एलएलपी (ABZ-1020) वेकार प्रवीकृत कर्गावर 12/48 विस्तोमेटिक, 20वी एस.पी. मार्च, मई विश्ली, विल्ली, भारत, 110021में रिक्त है, के मार्क्त में

ल्लावित अपनी बायरिया को सीवस्ट्रास आफ क भर्मी मीत्रक, आईएमसीआई टीवर ६1, गई दिल्ली-110019 को इस गेरिस के प्रका के 21 (इक्कीस) दिनों के सेटर नेवीदन के रूकत है, साथ ही इसकी एक प्रति सुनिय एकएलपी के पर्ताकृत कार्याला के गीव प्रति

मार्थिक विकास किया के प्रतिकृति के प्रतिकृत

अपनास्त्र [PH44 8 ft) देखी
कारता मेंदियां
व्यक्ति निम्म इत्यावस्थ्यां हुम्ब्यां हुम कि हित होगा का माना का करिया का कि होगा कि होगा कि हित हो हित है ।
व्यक्ति निम्म इत्यावस्थ्यां हुम बहुन हुम कि हित हो कार्यान के विक्रियम् कार्यावस्थ्यां के कि हम के कार्यावस्थ्यां के क्षेत्रयां के क्ष्म में हित होगा कि हम कार्यान के कि हम के कार्यावस्थ्यां के क्ष्म में इतिहीत हित (क्ष्मां के) हमान करिया के कार्यावस्थ्यां कार्यावस्थ्यां के कार्यवस्थ्यां के कार्यावस्थ्यां कार्यवस्थ्यां के कार्यावस्थ्यां कार्यावस्थ्यां के कार्यावस्थ्यां कार्यावस्थ्यां के कार्यावस्थ्यां कार्यावस्थ्यां के कार्यावस्थ्यां के कार्यावस्थ्यां के कार्यावस्थ्यां कार्यावस्थ्यां के कार्यावस्थ्यां

All that part and paced of the immovable property of Mr. Surgyani Gurjar / Hanso Devi consistent building, structures, exceitons, installations, etc. situated a Parta No. 13, Book No. 15, Village-Gram Panchayar, Lakhri, Th.-Bansur, Diot-Alwar Rajasthan. Admensuring 127.11 Sq. yard. until triff affired:

बारो और क्षेत्रीचार्य:-On the North by: Bhagirath, Nihal Singh & Open Land, On the South by: Self Land & Madan Plot, On the East by: Self Open/Road, On the West by: Bhagirath, Nihal Singh & Open Land प्राधिकृत अधिकारी दिनांक: 3/02/2025 स्थान :- Jaipur इंडसइंड बैंक लिमिटेड

कॉटिनेंटल मिक्योरिटिज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यांलयः फ्लैट नं. 301, मेट्रो प्लाजा, परिवहन मार्ग, जयपुर-302001 (राजस्थान), फोन : 0141-2943037, 9468671121 CIN: L67120RJ1990PLC005371. 항: 바ল: continentalsecuritieslimited@email.com, 협절대중 : www.continentalsecuritiesltd.com 31 दिसम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के लिए गैर अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरणों का सार

विवरण	समाप्त तिमासी	समाप्त पिछली तिमाही	गतवर्ष के अंत में समाप्त तिमाही	समाप्त नौमाही	गतवर्ष के अंत में समाप्त नौमाही	गत वर्ष समाप्ती
	31.12.2024	4 30.09.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.03.2024
1403	गैर अंकेक्षित	गैर अंकेक्षित	गैर अंकेक्षित	गैर अंकेक्षित	गैर अंकेसित	अंकेंसित
परिवालनों से कुल आव (शुद्ध) कर के बाद शुद्ध लाभ /(हानि)	80.62	65.22	39.83	210.66	115.57	158.55
(कर, असाधारण और / या असाधारण वस्तुओं से पहले)	57.44	49.85	28.07	154.14	75.02	104.29
कर के पहले शुद्ध लाभ/(हानि)(असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं के पहले)	57.44	49.85	28.07	154.14	75.02	104.29
कर के बाद शुद्ध लाभ /(हानि) (असाधारण और / या असाधारण वस्तुओं के बाद) अवधि के लिए कुल व्यापक आय एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद)	42.57	37.31	21.01	114.98	56.23	76.38
के लिए लाभ⁄हानि	42.57	37.31	21.01	114.98	56.23	76.38
समता अंश पूंजी	525.06	525.06	425.06	525.06	425.06	489.06
रिजर्ख (पूर्व लेखा वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार पूनमूँल्यांकन रिजर्ब के अतिरिक्त) आय प्रति शेयर (ठ. १०/- प्रति का)	898.91	856.34	375,96	898.91	375.96	652.12
मूल	0.16	0.14	0.10	0.44	0.26	0.31
तरल	0.16	0.14	0.10	0.44	0.26	0.31

िप्रशां : उसरोकत विवारण सेवी (सूचीयन तथा अन्य अनुसारन असेका) विशेषणम्, 2015 स्त्री विशेषणम् व अकेशंकति विवारण सेवी (सूचीयन तथा अन्य अनुसारन असेका) विशेषणम्, 2015 स्त्री विशेषणम् व अकेशंकति वर्षण हास्योत क्षेत्र मान्याल स्वीर्ण सं सामान्य स्थापित स्वीर्ण के विवारण स्थापित स



Place: Lucknow Date: 08.02.2025

(Rs. in Crore)

INDIA PESTICIDES LIMITED

CIN No.: L24112UP1984PLC006894

Regd. Office: 35-4, Civil Lines, Bareilly –243 001, Utah Fradesh, India. Tel:+91 0581 2567459

porate Office: Water Works Read, Swarup Cold Storage Compound, Aishbagh, Lucknow - 226 004, Utit
Tel: +91 0522 2653602 Email: investor@indiapesticideslimited.com Web: www.indiapesticideslimited. EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS

	FOR THE QUAR	TER AND NINI	E MONTHS EN	DED DECEMBE	R 31, 2024		(NS. III CIUIE)
2000		Quarter	Quarter	Quarter	Nine Months	Nine Months	Year
SI.	Particulars	Ended	Ended	Ended	Ended	Ended	Ended
No.	Farticulars	31.12.2024	30.09.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.03.2024
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1.	Total Income from operations	172.22	228.78	150.68	621.37	554.09	680.41
2.	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax,	23.21	33.60	32.49	84.21	81.20	82.30
	Exceptional and/or Extraordinary items)						
3.	Net Profit/ (Loss) for the period before tax	23.21	33.60	32.49	84.21	81.20	82.30
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)						
4.	Net Profit/ (Loss) for the period after tax	16.07	25.91	23.99	62.01	59.92	60.17
5	(after Exceptional and/or Extraordinary items) Total comprehensive income for period	16.14	25.91	24.08	62.13	60.20	60.37
5.	(Comprising Profit/(Loss) for the period	16.14	25.91	24.08	62.13	60.20	60.37
	(after tax) and Other Comprehensive Income						
	(after tax)						
6.	Equity Share Capital	11.52	11.52	11.52	11.52	11.52	11.52
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)						813.39
	as shown in the Audited Balance Sheet						
	of the previous year						
8.	Earning Per Share						
	(Face Value of Rs. 1 each) (Not annualised)						
	1. Basic	1.40	2.25	2.09	5.39	5.23	5.24
	2. Diluted	1.40	2.25	2.09	5.39	5.23	5.24
	SUMMARY OF KEY STAP	IDALONE UN	AUDITED FINA	ANCIAL RESU	LTS IS AS FO	LLOW:	(Rs. in Crore)

SUMMARY OF KEY STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS IS AS FOLLOW: (Rs.											
SI. No.	Particulars	Quarter Ended 31.12.2024 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2024 (Unaudited)	Quarter Ended 31.12.2023 (Unaudited)	Nine Months Ended 31.12.2024 (Unaudited)	Nine Months Ended 31.12.2023 (Unaudited)					
1. 2. 3.	Total Revenue from Operations Profit before tax Profit after tax Total Comprehensive Income	172.22 24.36 17.36	228.78 34.26 26.48	150.68 32.95 24.41	621.37 86.04 63.90	554.09 81.45 60.15	61.19				

Notes: (1) The above is an extract of the unaudited financial results for the quarter ended 31 December, 2024 which have been reviewed by the Audit Committee and approved by Board of Directors at their meeting held on 8 February 2025, and subjected to limited revely byte additional field with the stock-exchanges under Regulation 30 5 SEBI (Listing Obligations and Discourse Requirements) Regulation 2015, as mended. The full of with the stock-exchanges under Regulation 2015, available on the websides of the Company, (www.indenseitondicom), National Stock Exchange of India Limited (www.insendia.com) and SEL Limited (www.insendia.com) and SEL

000



India Pesticides Limited Sd/-Dr. K. Adeppa Whole- Time Director DIN 08987462

PUBLIC NOTICE

M/s Emaar India Limited Registered Office: 306 - 308, Square One, C-2, District Centre, Saket, New Delhi- 110017 Phone No. 011- 41521155, website: in.emaar.com CIN: U45201DL2005PLC133161

Notice in accordance with Notification No.18/30/09-5HG2/853 dated 12.6.23, issued by Puniab Govt. for issuance of Completion Certificate

M/s Emaar India Limited ("the Developer") is hereby publishing this notice seeking feedback from residents towards obtaining Partial Completion certificate for 9.791 acres of land consisting of 108 plots & roads situated in Sector 108 & 109 Mohali, Distt SAS NAGAR. The said Totals situated in Section 1 to 8 1109 Mothani, Dist 39X319XXXXX. The Saudi plots/area are part of approved layout no. 2520(STPSAS) dated 21.11.2024.The inspection committee consist of DTP CMADA and other GMADA officers formed under above said notification shall visit the site on 21.02.2025 at 11.30 AM. Residents may extend their feedback, if any, before the said committee/officers on due date & time.

SHIVKAMAL IMPEX LIMITED S

SI.	57 IN 10	Quarter	Nine Months ended	Quarter ended
No.	Particulars	31-Dec-24 (Unaudited)	31-Dec-24 (Unaudited)	31-Dec-23 (Unaudited
1.	Total Income from Operations	12.85	37.74	11,14
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	10.26	29.89	8.54
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	10.26	29.89	8,54
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	7.68	22.37	6.39
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	7,68	22.37	6.39
6.	Paid up Equity Share Capital	100.56	100.56	100.56
7.	Earnings Per Share (of Rs. 10 /- each) (not annualized for quarter) Basic Diluted	Rs. 0.76 Rs. 0.76	Rs. 2.22 Rs. 2.22	Rs. 0.64 Rs. 0.64



शुद्धिपत्र फॉर्म ए का द पालभर अध्यक्ष आर हिर्दा प्रकाशनत सावनात्रक पाणां का संदर्भ तो हिराता पालंक निमानुतात्र सदला मात्रे अंतिय सावधात्र मेंप्रेक्त का त्राप, यहाँ, 'सैन्स प्रका और पीक्रीकर सं पाणिक्र पिक्र मुक्तर (रिवाला चेत्रेक्तर) पंती, संख्या BBBIPN-002IP-N01127/20 202213/200, जान :-1-0131, संबाग पुणात्ती, पुलानु के संख्याल, पाणी को टंकी के प्रस्तुतार-143104, प्रक्रिया विशिष्ट सैनेतः cipalptly@gmail.com

र्पंजी. संख्या IBBI/IPA-002/IP-N01127/2021-2022/13700, पताः ई-10/313, मंगल पूर्वो गली, ष्वनुष्र रोह, खंडवाला, पानी की टंकी के पास, अमृतसर- 143104, प्रक्रिया विशिष्ट ईमेल: cirpalpfly@gmail.com



प्रीमियर पॉलीफिल्म लिमिटेड

सूचना --- 410 और

प्रस्कार / प्रस्कारी का प्रकार						
विशेष	श्री मनीष बाजोरिया को कंपनी के अकार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप : नियुक्त करना।	Ħ				
साधारण	वितीय वर्ष 2005-2008 हेतु आरल्जली पॉलीविनायल इंडिया लिमिटेड के साथ सामग्री र संबंधित पार्टीगत लेनदेनों का अनुमोदन करना।	è				

कारण विकित में उपलब्ध के ब्राह्मण, क्यांची के ब्राह्मण की प्रतिकार होंगा तिकित में का का स्वार्ण की प्रतिकार के प्रतिकार की प

IKIO Lighting Limited
(Formerly IKIO Lighting Private Limited) CIN No. 1 244440 24440

STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31-DEC-2024

0		- 0	Quarter Ended	d	Half Year	Year ended	
SI No.	Particulars	Particulars Ended 31-Dec-2024 3	Preceeding 3 Months Ended 30-Sep-2024	Corresponding 3 Months Ended 31-Dec-2023	9 Months Ended 31-Dec-2024	9 Months Ended 31-Dec-2023	Previous Year Ended 31-Mar-2024
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1,	Total income from operations	1,215.16	1,250.38	1,168.87	3,735.92	3,431.62	4,379.53
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	93.73	165.17	248.09	416.18	695.46	845.10
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	93.73	165.17	248.09	416.18	695.46	845.10
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	77.98	129.21	189.56	330.89	510.48	605.71
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	82 86	126.98	189.53	333.37	510.40	607.19
6.	Equity Share Capital	772.81	772.81	772.81	772.81	772.81	772.81
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year						4,755.25
8.	Earnings per equity share (Face value of Rs. 10 per equity share)						
	-Basic (in Rs.)	1.01	1.67	2.56	4.28	6.90	8.09
	-Diluted (in Rs.)	1.01	1.67	2.56	4.28	6.90	8.09

STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31-DEC-2024

0)		10	Quarter Ended	1	Half Year	Year ended	
SI No.	Particulars	3 Months Ended 31-Dec-2024	Preceeding 3 Months Ended 30-Sep-2024	Corresponding 3 Months Ended 31-Dec-2023	9 Months Ended 31-Dec-2024	Corresponding 9 Months Ended 31-Dec-2023	Previous Year Ended 31-Mar-2024
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1.	Total income from operations	451.28	576.99	594.23	1,693.95	1,884.65	2,409.76
	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	64.51	79.33	88.37	262.36	327.63	391.56
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	64.51	79.33	88.37	262.36	327.63	391.56
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	51.03	66.46	67.92	204.23	241.71	286.76
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	51.03	65.60	67.89	203.37	241.63	287.20
3.	Equity Share Capital	772.81	772.81	772.81	772.81	772.81	772.81
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year						4.026.02
8.	Earnings per equity share (Face value of Rs. 10 per equity share)						4,020.02
	-Basic (in Rs.)	0.66	0.86	0.92	2.64	3.27	3.83
	-Diluted (in Rs.)	0.66	0.86	0.92	2.64	3.27	3.83

uits of the Company for the quarter and nine morths ended December 31, 2024 have been reviewed buently approved by Board of Directions (the Board) at their enspective meetings field on February 0 than the been subjected to a limited review by the Stuttory Auditors of the Company. Or provided the subject of the Company of the value field. States of the Company of their value field, the subject of the LLE frequires (Spiton Scheme 202 Company and its subsidiary companies at the releasing of the Normanies and Remunisation Company and its subsidiary companies and the releasing of the Normanies and Remunisation Company and the subsidiary companies and the releasing of the Normanies and Remunisation Company and the subsidiary companies and the releasing of the Normanies and Remunisation Company and the subsidiary companies and the releasing of the Normanies and Remunisation Company and the subsidiary companies and the releasing of the Normanies and Remunisation Company and the Subsidiary companies and the releasing of the Normanies and Remunisation Company and the Subsidiary companies and the releasing of the Normanies and Remunisation Company and the Subsidiary companies and the releasing of the Normanies and Remunisation Company and the Subsidiary companies and the releasing of the Normanies and Remunisation Company and the Subsidiary companies and the releasing of the Normanies and Remunisation Company and the Subsidiary companies and the releasing of the Normanies and Remunisation Company and Subsidiary companies and the Subsidiary companies and the Remunisation Company and Subsidiary companies and the Remunisation Company and Subsidiary Company and Subs

For and on behalf of the Board of Dir IKIO Lighting Limited Sd/Atul Kumar Jain Sanjeet Singh
CFO Whole Time Direct
DIN: 08353656

www.readwhere.com



SUNDAY, FEBRUARY 9, 2025

15

FE SUNDAY

HCL INFOSYSTEMS LIMITED

Regd. Off.: 806, Siddharth, 96 Nehru Place, New Delhi 110 019.

Corp. Off.: A-11, First Floor, Sector -3 Noida, UP 201301.

Phone number: +91 120 2520977, 2526518-19

Website: www.hclinfosystems.in; Email ID: cosec@hcl.com

	website. www.nciiniosystems.in, i			
	UNAUDITED CONSOLIDATED FINA	NCIAL RESU	JLTS FOR T	HE 2∧I₹in Lakhs
SI.	QUARTER AND NINE MONTHS EN	Quarter	Nine months	Quarter
No.	Particulars	ended	Period ended	ended
		31-Dec-2024	31-Dec-2024	31-Dec-2023
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1.	Total income from operations	1,475	4,090	1,577
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items) from continuing operations	(525)	(1,721)	(930)
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or Extraordinary items) from continuing operations	(525)	(1,721)	(930)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items) from continuing operations	(525)	(1,721)	(930)
5.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or Extraordinary items) from discontinued operations	-	-	-
6.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items) from discontinued operations, including disposal	-	-	-
7.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	(525)	(1,721)	(930)
8.	Total comprehensive income for the period [comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other (545) comprehensive income (after tax) (545)		(1,708)	(917)
9.	Paid up equity share capital	6,584	6,584	6,584
10.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)			
11	Earnings Per Share (of ₹ 2/- each)			
	(for continuing and discontinued operations) -			
	Basic:	(0.16)	(0.52)	(0.28)
- 3	Part 1	(0.16)	(0.52)	(0.29)

ı	Diluted:	(0.16)	(0.52)	(0.28)			
ı	Unaudited Standalone Financial Results for the relev	ant periods are	ant periods are as follows				
ı	PARTICULARS	Quarter ended	Nine months period ended	Quarter ended			
ı		31-Dec-2024	31-Dec-2024	31-Dec-2023			
ı		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)			
ı	Total income from operations	323	884	279			
ı	Net Profit/(Loss) for the period before tax and exceptional items	(300)	(1,133)	(379)			
ı	Net Profit / (Loss) for the period before tax and after exceptional items	(546)	(1,796)	(911)			
ı	Profit /(Loss) after tax and after exceptional items	(546)	(1,796)	(911)			
ı	Total comprehensive income/(Loss) for the period [comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	(546)	(1,796)	(911)			
ı	Notes:-						

To After recommendation by the Audit Committee, these results have been approved and taken on record by the Board of Directors at its meeting held on February 07, 2025. The stitutiony auditors of the Company have conducted limited neiver of hese financial sensits, pursuant by Regulation 3.0 FSE (stillien) Collegion and Disclosure Requirements (Regulation 2015.

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filled with the Stock Exchanges under Regulation 3.0 of the SEEI (Listing Origination and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The list from of the consolidated and standardone OLarethy Financial Results are available on the Stock Exchange weetbells (www.besindia.com and www.nesindia.com) and also available at the company's veteble tww. Nestrologistems and method access and size has seen forcing the Control given below.

By order of the Board for HCL Infosystems Limited Sd/-Nikhil Sinha

HCL INFOSYSTEMS

UNIFINZ CAPITAL INDIA LIMITED

	Particulars	0	uarter Ende	d	Nine Mon	ths Ended	Year Endec
SL No.		December 31, 2024 Reviewed	September 30, 2024 Reviewed	31, 2023	December 31, 2024 Reviewed	December 31, 2023 Reviewed	March 31, 2024 Audited
1	Total Income from operations	3,723.03	2,373.94	795.95	7,597.24	2,083.56	2,980.16
2	Net Profit for the period (before Tax and Exceptional Items)	825.23	662.55	(142.80)	1,739.05	(118.76)	(173.84)
3	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional Items)	825.23	662.55	(142.80)	1,739.05	(118.76)	(173.84)
4	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional Items)	613.76	488.60	(106.60)	1,268.03	(89.30)	(113.77)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	613.76	488.60	(106.60)	1,268.03	(89.30)	(109.89)
6	Paid Up Equity Share Capital (Face Value of ₹ 10 each)	653.90	332.20	314.00	653.90	314.00	314.00
7	Reserves	3,426.54	1,778.51	(107.16)	3,426.54	76.42	55.83
8	Earnings per share (EPS) (in ₹) Basic EPS Diluted EPS	18.28 11.94	15.41 5.98	(3.39)	39.35 25.33	(2.84)	(3.62)

Warrants on a preferential basis to persons or entities belonging to the non-promo Share for face value of Rs. 10⁶ each and at an issue price files, 56.20 each with 2024. During the Quarter, the Company has converted 32.17000 warrants out o face value of Rs. 101- each and at an issue price of Rs. 56.20 each on receipt of ful 2024, the Corr



For and on behalf of the Board Unifinz Capital India Limited (Formerly Known as Shree Worstex Limited) Sufd-PAWAN KUMAR MITTAL Director DIN:00749265

NEIL INDUSTRIES LIMITED NELL RUDSTHIES LIMITED

CIN: LS198W1982LC030991

Rio: S88, (Ground Foot), Lake View Boad, Kolkak-700

orate Office.

B Mil: nelliferediffmall.com., relindustrieslimited@pmall

Mob: Corp Office: +91 8953338815, website: www.nelc.

Extract from the Unaudited Financial Results for

the Quarter ended December37, 2024

(All amounts in R. Lakin except earning)

П		Quarter	Year	Corresponding 3	
SL	Particulars	ended	ended	months ended in	
No.		on 31-Dec-2024	on 31-Mar-2024	the previous year on 31-Dec-2023	
		(Un-audited)			
				(Un-audited)	
1.	Total Income from Operations	76.59	316.20	80.93	
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary				
	items #)	52 74	280 51	69 15	
3.	Net Profit / (Loss) for the period before	52.74	200.51	69.15	
٥.	Tax. (after Exceptional and/or				
	Extraordinary items #)	52 74	280 51	69 15	
4	Net Profit / (Loss) for the period	UL., 14	200.01	05.10	
	(after Tax. Exceptional and/or Extraordinary				
	items #)	40.68	251 19	49 90	
5.	Total Comprehensive Income for				
	the period [Comprising Profit / (Loss)				
	for the period (after tax) and Other				
	Comprehensive Income (after tax)]	40.68	251.19	49.90	
6.	Equity Share Capital	1955.32	1955.32	1,955.32	
7.	Reserves (excluding Revaluation				
	Reserve)	3889.66	3784.44	3687.51	
8.	Earnings Per Share (of Rs 10/-				
	each) (for continuing and discontinued				
	operations).				
1.	Basic	0.21	1.28	0.26	
2.	Diluted	0.21	1.28	0.26	

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Un-Auum Results filed with the Stock Exchanges pursuant to Regulation (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, command of Quarterly Un-Audited Financial Results are available on of the Stock Exchange i.e., www.bseindia.com and also available on the Stock Exchange i.e., www.bseindia.com and also avai

parry's website www.neil.co.in above Quarterly Results were reviewed by the Audit Committee an oved by the Board of Directors in their respective meetings held o usry07 2025



For Neil Industries Limited Sd/-Arvind Kumar Mittal (Managing Director) DIN: 02010445



PREMIER POLYFILM LIMITED
Registered Office: 305, Elite House, III Floor 36, Community
Centre, Kallash Colony Extrasion, Zanrocospur, New Delhi 11048

e-voting process ('e-voting'):	
Type of Resolution Resolutions	Resolution
Special	To appoint Shri Manish Bajoria as a Non Executive Independent Director of the Company
Ordinary	To Approve Material Related Party Transactions with RMG Polyvinyl

Ordinary

To Approve Material Rolland Parity Transactions with RMAD Polyviry

London Countries of the International year 2025-2020.

The accordance with the WCL Coulties, the Unique Transactions with RMAD Polyviry

London Polyviry Ballet Transaction and Transactions and Section 1 of Polyviry Ballet Transactions and With Countries of Polyviry Ballet Transactions and Section 1 of Polyviry Ballet Transactions and whose name approach in the Register of Metheran / 1st of beneficial common maritained by the Company

Dispositions are in Prints, 97 "arman / 2025. In the CACH TO Ballet Accept of the Ottom

website of the Stock Exchanges is 65% Limited and National Stock Exchanges of India Limited or

website of the Stock Exchanges is 65% Limited and National Stock Exchanges for Mad Limited or

website of the Stock Exchanges is 65% Limited (1005.) In its section at view exchanged prints and one in the Cach Touck, a present of the Postal Ballet Common and the pre-paid balleties are size of the Postal Ballet Common respiration of the internal Stock Exchanges is set to the members or

the Stock Ballet Stock and member convole through eventure, Uniform given shall be enclosed on the

postal Ballet Common respirated in the same of the members are the CACH Touck, a present

the Company has an appared the services of CDS, for providing a voting balleties in the members of

the Company has an appared any time services of CDS, for providing a voting balleties for the members of

the Company has an appared the services of CDS, for providing a voting balleties for the members of

the Company has an appared the services of CDS, for providing a voting balleties and the members of the contribution of the Postal Balleties and the present appared and pattern grantsmans. Hardets are convoluted in the second contribution of the Postal Balleties and the Postal Balleti

The Company has engaged the services of CQSE, for providing evoling facilities to the interthetic. In conforming with the present applicable registry requirements, Members can vive on the address of Recibilities only through evoleng which will commence at 1990 A.M. (ST) on Members. Members of Recibilities only through evoleng which will commence at 1990 A.M. (ST) on Members. Members which are contained to the second of the registry of the registry of the second of the registry of the registry

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

Élin ≣ एलिन ्

ELIN ELECTRONICS LIMITED

Date: 07-02-2025 Place: New Delhi

Corporate Office & Registered Office: 4771, Bharat Ràm Road, 23, Daryaganj, New Delhi – 110 002, India | Tel.: 011-430004

E-mail: rkc@elinindia.com | Website: www.elinindia.com | Corporate Identity Number (CIN): L29304DL1982PLC428372

EXTRACT OF UNAUDITED (STANDALONE & CONSOLIDATED) FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2024

(Rs. in Millions unless otherwise stated STANDALONE CONSOLIDATED
 Quarter Ended
 Nine Months Ended
 Year Ended
 Quarter Ended
 Nine Months Ended
 Year Ended

 3112.2024
 30.09.2024
 31.12.2023
 31.12.2024
 31.12.2023
 31.02.2024
 31.12.2024
 30.09.2024
 31.12.2022
 31.12.2023
 31.02.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 31.12.2023
 < -Audited Un-Audited Un-Audited Un-Audited Un-Audited Un-Audited Un-Audited Un-Audited Un-Audited Audited 2,371.23 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax Exceptional and/or Extraordinary Items & Share of profit/(loss) of Associates) 37.95 48.65 37.30 154.13 144.46 181.92 19.94 64.37 37.77 164.93 145.76 196.83 Net Profit / (Loss) for the period before (after Exceptional and/or Extraordinary Items & Share of profit/(loss) of Associa 164.93 37.95 37.30 154.13 144.46 48.65 181.92 64,37 145.76 196.83 terms a Share of prioritions for Associates)

Net Profit (Tuoss) for the period after tax
(after Exceptional and/or Extraordinary)
terms & Share of profit (Toss) of Associates)

Total Comprehensive Income for the period
(Comprising Profit (Loss) for the period
(after tax) and Other Comprehensive
Income (after tax) 28.28 36:41 26.70 113.84 102.14 127.39 13.99 47.8 26.44 120.99 103.34 138.74 6 Paid-up Equity Share Capita 239.63 248.30 248.30 248.30 248.30 248.30 248.30 239.63 239.63 239.63 239.63 239.63 Reserves (excluding Revaluation Re shown in the Balance Sheet of prev 4,052.14 4,791.36 8 Earnings Per Share (of Rs. 5/- each) (not annualized) (a) Basic (in Rs.) 2.06 2.90

(b) Diluted (in Rs.) 0.57 2,06 0.73 2.29 2.57 0.29 2.52 2.16 2.90

For ELIN ELECTRONICS LIMITED

BOMBAY CYCLE & MOTOR AGENCY LIMITED SOMBAY CYCLE & MOTOR

CONSOLIDATED Mo STANDALONE
| Nine Months Ended | Year Ended Particulars Quarter Ended 30-09-2024 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2023 31-03-2024 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) 31-12-2024 30-09-2024 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2023 31-03-2024 31-12-2024 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) 672.9 64,49 135.61 109.0 341.7 367.8 450.64 64.49 135.6 109.0 341.7 367.8 64.49 135.61 109.00 341.75 367.88 450.64 64.49 135.61 109.0 341.7 367.88

Extract of Standalone and Consolidated Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended 31st December 2024

Total Income from Operations (net) Net Profit/(Loss) for the peticid (policy) for the control of 450.6 450.6 340.50 18.71 340.50 137.68 278.03 137.6 278.00 17.68 137.32 83.48 264.78 277.13 339.14 1.76 121.8 218.2 243.63 311.20 County State Capital
Face Value or \$ 10/- each)
Reserves (excluding Revaluation
Reserves as shown in the Balance
Sheet of previous year)
Carning Per Share (of \$ 10/- each)
for continuing and discontinued 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 2,812.7 2,732.1

bay Cycle & Motor Agency Limited Sd/-Chirag C. Doshi Chairman & Managing Director (DIN: 00181291)

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarter and Nine Months ended Financial Results as on 31 at December, 2024 filed with the Stock Exchange under Regulations the SERIE (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter & Hall Year Financial Results is available on the Stock Exchange website at www.bernied.com and not the Company's available on the Stock Exchange website at www.bernied.com and not the Company's available on the Stock Exchange website at www.bernied.com and not the Company's available on the Stock Exchange website at www.bernied.com and not the Company's available on the Stock Exchange website at www.bernied.com and not the Company's available on the Stock Exchange website at www.bernied.com and not the Company's available on the Stock Exchange website at www.bernied.com and not the Company's available on the Stock Exchange website at www.bernied.com and not the Company's available on the Stock Exchange website at www.bernied.com and not the Company's available on the Stock Exchange website at www.bernied.com and not the Company's available on the Stock Exchange website at www.bernied.com and not the Company's available on the Stock Exchange website at www.bernied.com and not the Company's available on the Stock Exchange website at www.bernied.com and not the Company's available on the Stock Exchange website at www.bernied.com and not company and not the Company are sufficient to the Stock Exchange website at www.bernied.com and not company are sufficient to the Stock Exchange website at www.bernied.com and not company are sufficient to the Stock Exchange website at www.bernied.com and not company are sufficient to the Stock Exchange website at www.bernied.com and not company are sufficient to the Stock Exchange website at www.bernied.com and not company are sufficient to the Stock Exchange website at www.bernied.com and not company are sufficient to the Stock Exchange website at www.bernied.com and not company are sufficient t





Place : AGRA Date : 07.02.2025







SER TV

Sea TV Network Limited
Regd.Office: 148, Manas Nagar, Shahganj, Agra-282010
Website: www.satvnetwork.com Email ID: cej@eastwnetwork.com
CIN: L92132UP2004PLC028650 / L61104UP2004PLC028650

STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & NINE MONTHS ENDED 31st DECEMBER, 2024

 Outst Echel
 Now Horiss Echel
 Your Echel
 Quarter Echel
 Now Horiss Echel
 Your Echel
 Now Horiss Echel
 Your Echel
 Now Horiss Echel
 Your Echel
 Your Echel
 Your Echel
 Your Echel
 Your Echel
 Your Echel
 You Eche 2 Net Profit (Loss) for the period (before Exceptional and/or E-tree 2 Exceptional antifer Extending Valency
3 Net Portit Mood for the period after to other
Exceptional and For Mood for the period after to other
Exceptional and For Mood formity of these
Total Comprehensive Income[Loss] for
the period (Comprehensive Income[Loss] for
the period (after tax) and Other
Comprehensive Income (after tax)) (103.21) (173.88) 3.354.16 (378.43) 3.001.06 3.034.05 (109.48) (4.01) (100.54) 3.043.00

(0.84) (1.45) 27.90 (2.16) 25.62 25.18 (6.91) (0.04) (0.88) 25.32 25.30 (0.84) (1.48) 27.90 (2.16) 25.82 25.18 (6.91) (0.04) (0.88) 25.32 25.30 Basic (Rs.)
Diluted (Rs.)

The above is an extract of the detailed format of standations and consolidated Quarterly and Nine Months Financial Results filed with the Slock Exchanges under Regulation 32 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations. 2015. The full format of the audited standations and consolidated Prescribe Results are exalible to the North Exchange States are washed to the Control of the SebI (SebI (SebI(SebI (SebI (SebI)(SebI (SebI (SebI)(SebI)(SebI)(SebI)(SebI)(S

New Delhi



.